



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3—जुलाई 9, 2010 (आषाढ़ 12, 1932)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3—JULY 9, 2010 (ASADHA 12, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2010

सं. आरएस 3/7/1/2010/45-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संपादक श्री कृष्ण कुमार प्रजापत को 11 जून, 2010 से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100 रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

संदीप मिश्रा, सहायक निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जून 2010

सं. ए-35013/1/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती वन्दना किनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 1989) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में निदेशक के पद पर वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37,400--67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये में प्रतिनियुक्ति आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 02 जून, 2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2010

सं. ए-43011/1/2008-प्रशा. II--श्री आर. महेश, नियमित आर्थिक अधिकारी, कृषि और सहकारिता विभाग की वेतन वर्ग-3 रुपये 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन में भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV जुनियर टाइम स्केल में पदोन्नति के परिणामस्वरूप आर्थिक मामले विभाग की फाईल सं. 13016/4/2010-आईईएस से जारी आदेश सं. पी-2/2010 दिनांक 3.5.2010 के अनुसार 13 मई, 2010 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में वेतन वर्ग-3, रुपये 15,600-39,100/- + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन सहित अनुसंधान अधिकारी (आईईएस) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2010

सं. ए-12025/8/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति, योजना आयोग के श्री बैधर स्वैन, अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी) को योजना आयोग में पे बैंड-2, 9,300--34,800 रुपये + ग्रेड पे 4,600/- रुपये के वेतनमान

में आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 10.5.2010 (अपराह्न) से शुरू में एक वर्ष के लिए अथवा नियमित पदधारी के उसके मूलपद पर प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 2 जून 2010

सं. ए-12025/14/2008-प्रशा. II--राष्ट्रपति जी, श्री धीरज चन्द्र राय, कल्याण अधिकारी, जेल महानिदेशक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को संच लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर वेतन बैंड-3 (15,600-39,100/-) + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन सहित 28.5.2010 अपराह्न से शुरूआती तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक योजना/महिला कार्यक्रम) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2010

सं. ए-19(16)/2007-प्रशा. II--श्री विपिन कुमार, अन्वेषक, टाउन और कंटी योजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली तथा वर्तमान में योजना आयोग में वेतनवर्ग-2 (रुपये 9,300--34,800/-) + 4,600/- रुपये ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति आधार पर आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के पद पर कार्यरत, को योजना आयोग में अपनी प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने पर 6.7.2010 अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त समझा जाएगा।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2010

सं. एफ-6 (1597)/94-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर डॉ. रत्नाकर गेदाम, सलाहकार, योजना आयोग 31 मई, 2010, अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2010

सं. एफ-6 (2133)/2010-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई 2010 के पत्र सं. 21/3/2010-ईओ (एसएम.1) द्वारा दिए गए एससीसी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री के. पी. कृष्णन, आईएस (कर्नाटक:83) संयुक्त सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने 21 मई 2010 पूर्वाह्न से 30 जून 2010 तक सचिव, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2010

सं. एफ-6 (1281)/86-प्रशासन I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून 2010 के पत्रांक 7/7/2009-ई.ओ.(एस.एम. 2) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, राष्ट्रपति, योजना आयोग में सलाहकार श्री एल. पी. सोनकर को दिनांक 15 जून, 2010 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-4, रुपये 37,400--67,000/- + 10,000/- रु. ग्रेड पे से रुपये 67,000--79,000/- के एच.ए.जी. वेतनमान पर इन-सिटू उन्नयन प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त उन्नयन के परिणामस्वरूप, श्री सोनकर को वरिष्ठ सलाहकार का पदनाम दिया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2010

सं. ए-60011/31/2001-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मद्रास पीठ) के 2001 के ओ.ए. सं. 374 तथा 375, दिनांक 27.08.2001 के आदेशों के अनुसरण में तथा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वर्तमान में भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर कार्य कर रहे श्री आर. रघुपति की संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग के ग्रेड 1) के पद पर प्रोन्नति को दिनांक 10.08.2001 से पूर्व दिनांकित करते हैं।

2. उपरोक्त के अनुसरण में, भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग के वर्ष 2000-01 के ग्रेड I के पैनेल में श्री आर. रघुपति का नाम श्री बी. एल. निषाद (क्रम सं. 3) के नाम के नीचे तथा श्री ए. पी. अग्रवाल (क्रम सं. 4) के नाम से ऊपर क्र. 3-ए पर रहेगा। इस विभाग की दिनांक 02.1.2002 की अधिसूचना सं. ए-32012/5/2001-प्रशा.-I (वि.का.) यहां तक संशोधित हो गई है।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2010

सं. ए-32013/05/2010-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की एक नियमित अनुभाग अधिकारी (सी. एस. एल. सं. 6348) श्रीमती आशा सोय को विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- में रुपये 6600/- के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 3 जून, 2010 के अपराह्न से पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती आशा सोय की अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का ग्रेड-I) के ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/3/2010-सी.एस.-I (यू.) द्वारा शासित होगी।

डी. चौधरी, अवर सचिव

## न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जून 2010

सं. के-13028/2/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायविद् सुश्री रेखा मनहरलाल दोशीत को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/1/2010-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मो. युसुफ एकबाल को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/2/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री सुशील हरकौली को, न्यायविद् श्री मो. युसुफ एकबाल की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 जून 2010

सं. के-13015/4/2009-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री तरुण कुमार गुप्ता, (ii) श्री रघुनाथ भट्टाचार्य, (iii) श्री असीम कुमार राय, (iv) श्री मृनाल कान्ति चौधरी और (v) श्री कांचन चक्रवर्ती को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2010

सं. 44/19/2008-एनडीएम-IV/II--राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न हैं, की केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चयन सूची वर्ष की दिनांक 01 जुलाई से नियमित आधार पर, सहर्ष नियुक्ति करते हैं:--

क्र. सं.	केंद्रीय सचिवालय सेवा संख्या	चयन सूची वर्ष	अधिकारी का नाम
1.	5509	2006	श्री अशोक कुमार जैन
2.	6287	2007	श्री बुद्ध राम (अनु. जाति)
3.	5956	2007	श्री चन्द्र शेखर प्रसाद

2. तथापि, वास्तविक लाभ केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उपलब्ध होंगे।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में सिविल रिट याचिका संख्या 13352/2005, कैट, नई दिल्ली में श्री पी.आर. शर्मा बनाम संघ सरकार शीर्षक वाले मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी.एस. भंडारी बनाम संघ सरकार एवं अन्य का शीर्षक वाले मूल आवेदन संख्या 2674/2009 में दिए गए अंतिम निष्कर्ष के अधीन होंगी।

प्रोमिला सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2010

सं. 14031/1/2007-यूटीएस--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉ. आर. डी. श्रीवास्तव दिनांक 31 मई, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय

नई दिल्ली-66, दिनांक 14 जून 2010

सं. आई-12012/05/07/डी.जी.सी.डी.(फायर)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में सहायक के पद पर कार्यरत, श्री पी. बी. भोले को दिनांक 25.03.2010 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,600/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ओम प्रकाश, अग्निशमन सलाहकार एवं कार्यालयाध्यक्ष

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जून 2010

सं. 24012/5/2007-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री राजकमल, भारतीय प्रशासनिक

सेवा (छत्तीसगढ़ : 94) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकृत करते हैं।

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

सं. 24012/6/2003-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री बी. आर. मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (छत्तीसगढ़ : 84) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को दिनांक 4 सितम्बर, 2000 से स्वीकृत करते हैं।

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

सं. 24012/15/2006-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्या श्रीमती मैत्रेयी दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 86) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को दिनांक 01.02.2007 से स्वीकृत करते हैं।

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

सं. 14017/36/2005-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री शैलेश के. पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (छत्तीसगढ़ : 90) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को दिनांक 05.09.2007 से स्वीकृत करते हैं।

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2010

सं. 23012/05/2009-अ.भा.से.-III--वर्ष 2001 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त की गई और तमिलनाडु संवर्ग में रखी गई श्रीमती बी. ज्योति निर्मला, भा.प्र.से. (टी.एन. : 2002) को उनका नाम "बी. ज्योति निर्मला" से बदल कर "बी. ज्योति निर्मलासामी" करने की अनुमति दे दी गई है। तदनुसार उन्हें सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए श्रीमती बी. ज्योति निर्मलासामी के रूप में पहचाना जाएगा।

शौकत अली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2010

सं. 13017/32/2008-अ.भा.से.(I)-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर-त्रिपुरा एवं उत्तराखंड की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा सुश्री निधि मणि त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. टी. : 01) की मणिपुर-त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से उत्तराखण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को 15.05.2010 से 4 वर्ष की अगली अवधि

के लिए अर्थात् 14.05.2014 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, बढ़ाने हेतु अनुमोदन करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2010

सं. 13017/9/2010-अ.भा.से.(1)-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब तथा झारखण्ड सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार श्री दिप्रवा लाकड़ा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पी. बी. : 05) की पंजाब संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2010

सं. 14015/03/2009-अ.भा.सेवा.(1)-क-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत असम-मेघालय के संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मेघालय खंड में पदोन्नति कोटा शक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को अनुमोदित की गई मेघालय के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	मावशालांग खरमुजई (अनु.ज.जा.)	15.11.1956
2.	सी.सी.एम. मिहसिल (अनु.ज.जा.)	19.11.1956
3.	सिल्वेस्टर खारलीगंदोह (अनु.ज.जा.)	19.03.1960

2. उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का नाम शामिल किया जाना बंगलौर स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका सं. 39137/2009 (एस.कैट) (श्रीमती सवित्री एम. बी. बनाम यू.ओ.आई एवं अन्य), याचिका सं. 18303-1806/2010 (एस. कैट) (भारत सरकार, का. और प्र.वि. बनाम डॉ. पी. बोरेगोडवा एवं अन्य) तथा संबंधित रिट याचिकाओं के परिणाम के अध्यधीन होगा। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति विनियम के नियम 5(3) के उपबंधों से संबंधित मामला न्यायाधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/03/2009-अ.भा.सेवा(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मेघालय राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत वर्ष 2009 की चयन सूची के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्त पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं तथा उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत असम-मेघालय के संयुक्त भा.प्र.से. संवर्ग के मेघालय खंड में आबंटित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	मावशांलॉग खरमुजई (अनु.ज.जा.)
2.	सी.सी.एम. मिहसिल (अनु.ज.जा.)
3.	सिल्वेस्टर खारलीगंदोह (अनु.ज.जा.)

2. उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का नाम शामिल किया जाना बंगलौर स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका सं. 39137/2009 (एस-कैट) (श्रीमती सवित्री एम. वी. बनाम यू.ओ.आई एवं अन्य), याचिका सं. 18303-1806/2010 (एस-कैट) (भारत सरकार, का. और प्र.वि. बनाम डॉ. पी. बोरोगोडवा एवं अन्य) तथा संबंधित रिट याचिकाओं के परिणाम के अध्यधीन है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति विनियम के नियम 5(3) के उपबंधों से संबंधित मामला न्यायाधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय  
न्यायाचार अधिकारी-III का कार्यालय  
नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2010

सं. डी-III/460/सी एफ-11/2010--भारत के राष्ट्रपति ने श्री कैलाश श्रीराम अग्रवाल की मुंबई में मैसोडोनिया के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

2. श्री कैलाश श्रीराम अग्रवाल का कौंसली क्षेत्राधिकार होगा : महाराष्ट्र राज्य।

विनय कुमार, न्यायाचार अधिकारी-III

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2010  
भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)  
स्थापनाएं

सं. 18/2010 (फा. सं. ए-38012/04/2010-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत

श्री शांति प्रिय दास, अपर निदेशक, डीआरआई, कोलकाता की दिनांक 02.05.2010 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 17 मई 2010

सं. 21/2010 (फा. सं. ए-39012/05/2010-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री सुनील कुमार यादव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, एयर कार्गो काम्पलेक्स, नई दिल्ली के दिनांक 28.8.2009 (अपराह) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से तकनीकी त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं जिससे कि श्री यादव आई.पी.एस. को 'ज्वाइन' कर सकें।

एस. के. देब, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

दिनांक 31 मई 2010

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं

सं. 22/2010 (फा. सं. ए-38012/11/2010-ए.डी. II)--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री अहमद हुसैन, महानिदेशक (मूल्यांकन), मुम्बई की दिनांक 31.05.2010 (पूर्वाह) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2010

सं. 23/2010 (फा. सं. ए-38012/12/2010-ए.डी. II)--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री कै. सी. सिंह, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे के दिनांक 31.05.2010 (पूर्वाह) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2010

सं. 50 (फा. सं. ए-38011/2/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1972) के अधिकारी श्री नरिन्द्र सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई, 2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 51 (फा. सं. ए-38011/3/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1974) के अधिकारी श्री पी. एन. विट्टल दास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 52 (फा. सं. ए-38011/1/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1972) के अधिकारी श्री शेख नैमुद्दीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 53 (फा. सं. ए-38013/3/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एन. विजेन्द्रचार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 54 (फा. सं. ए-19012/7/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री आर. पी. सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1995) को दिनांक 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

#### वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2010

सं. ए-12034/4/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत अनुभाग अधिकारी (सीएसएल सं. 6509) श्री एम. एम. दौला को 4 जून, 2010 से 31 मई 2011 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो अथवा अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित सेवा शर्तों के अध्वधीन होगी :--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल के लिए इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

- (iii) श्री एम. एम. दौला की तदर्थ प्रोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए सं. 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ तथा ओए सं. 2674/2009 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2010

सं. ए-19011/297/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (सीएसएल सं. 6354) श्री विजय मल्होत्रा को 28 मई, 2010 से 31 मई 2011 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो अथवा अगले आदेशों तक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.यू. के तहत वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित सेवा शर्तों के अध्वधीन होगी :--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल के लिए इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (iii) श्री विजय मल्होत्रा की तदर्थ प्रोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए सं. 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ तथा ओए सं. 2674/2009 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

तरसेम चन्द, उप सचिव

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जून 2010

सं. ए-12023/4/2007-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री एस. डी. सिंह, (संयुक्त सचिव, सीएसएस काडर) जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन तत्कालीन एम. आर. टी. पी. आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, को सीएसएस पेंशन नियमों के नियम 48(1)(ए) के तहत दिनांक 31.03.2010 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

बीना रानी विज, उप सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2010

सं. ए-32014/3/2010-संवर्ग--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस. I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर अवर सचिव के नाते स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र. सी. एस. सं. एल. सं.	नाम	वर्ग	अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण की तिथि
1. 6482	सर्वश्री राजीव शर्मा	सामान्य	1997	31.08.1962	04.06.2010 (पूर्वाह्न)
2. 6662	श्री. धारंग सियोन डोंग	अ.ज.जा.	2000	01.01.1971	04.06.2010 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- यह तदर्थ प्रोन्नति उक्त ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- इस तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- जिन अधिकारियों ने अनिवार्य स्तर 'डी' प्रशिक्षण नहीं लिया है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदेश है, उन्हें छह माह की अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. सं. 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ तथा ओ.ए. सं. 2674/2009 श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. श्री राजीव शर्मा, अवर सचिव को 04.06.2010 (पूर्वाह्न) से सचिवालय में और श्री बी. धारंग सियोन डोंग, अवर सचिव को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2010

सं. जी-35012/1/10-वित्त II--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुसरण में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के संप्रेषण सं. 22/5/2010-ईओ (एसएम.1) दिनांक 4 जून 2010, के अनुसार श्री अरुण कुमार, सीएसएस (वाईओई : 74) को यथावत उन्नयन आधार पर तेल उद्योग विकास बोर्ड में अवर सचिव के रैंक तथा वेतन में दिनांक 10 मई, 2010 से नियुक्त करती है।

बी. के. सेठी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2010

सं. ए-38011/14/2009-स्थापना-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अवर सचिव (सीएसएस) (सीएसएल सं. 5077) श्री शरत चन्द्र दास दिनांक 30 अप्रैल, 2010 अपराह्न से भारत सरकार की सेवा से निवृत्त हुए।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2010

सं. ए-19011/1/2010-स्थापना-- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री सुनील सचदेव को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में पीबी-3, 15,600--39,100/- (ग्रेड पे 6,600/- रु.) में 4 जून, 2010 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. पूर्वोक्त तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस. I (यू) दिनांक 26 मई, 2010 में यथानिर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन होगी।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

उर्वरक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2010

सं. ए-32011/01/2010-एच.आर.-II--राष्ट्रपति, श्री सौमेन्द्र चंदा, अनुभाग अधिकारी को उर्वरक विभाग में 03.06.2010 (अपराह्न) से 31.05.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के आदेश सं. 5/3/2010/सीएस.-I (यू) में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों के अनुरूप अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

2. श्री सौमेन्द्र चंदा की नियुक्ति उर्वरक विभाग में अवर सचिव (एच.आर.-II) के पद पर की जाती है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

सं. ए-32011/01/2010-एच.आर.-II--राष्ट्रपति, श्री संजय श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी को उर्वरक विभाग में 08.06.2010 (अपराह्न)

से 31.05.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के आदेश सं. 5/3/2010/सीएस-1 (यू) में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों के अनुरूप अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

2. श्री संजय श्रीवास्तव की नियुक्ति उर्वरक विभाग में अवर सचिव (समन्वय) के पद पर की जाती है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

#### इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2010

सं. 11(42)/2009-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत सीएसएस संवर्ग के अधिकारी श्री भारत वीर चावला अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2010 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सुनील प्रकाश, उप सचिव

सं. 2(23)/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010 के आदेश सं. 5/10/2010 सीएसआई (यू) की अनुपालना में श्री सुब्रत के. बसु को 1 जून, 2010 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुनील प्रकाश, उप सचिव

सं. 11(53)/2009-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में प्रिंसिपल स्टॉफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत सीएसएसएस संवर्ग के अधिकारी श्री नंदलाल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2010 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सुनील प्रकाश, उप सचिव

दिनांक 4 जून 2010

सं. 5(4)/2010-स्थापना--राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश सं. 5/6/2007 दिनांक 27.4.2010 के संदर्भ में राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार जो जल संसाधन मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्य कर रहे थे, को 17.5.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक इस्पात मंत्रालय में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुनील प्रकाश, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2010

सं. 5(12)/99-स्थापना--श्री ध्रुव चक्रवर्ती, अनुभाग अधिकारी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से उनके संप्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप,

30 अप्रैल, 2010 (अपराह्न) से इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल किया जाता है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2010

सं. ए-32012/1/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.6.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/6/2009-सीएस-1 (एस) के अनुसरण में इस विभाग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को दिनांक 17 जून, 2010 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 2010 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड (पी बी-2) और 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	सहायक का नाम	चयन सूची वर्ष
1.	श्री विकास त्रिपाठी	1993
2.	श्री सुनील कुमार सिंह (अनु.ज.)	1995

2. उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्तियों को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाएगा। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी इन दो श्रेणियों में से किसी एक में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, जो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उनको उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख को नियमित अनुभाग अधिकारी इस विभाग द्वारा उनको आबंटित संबंधित संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2002-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.6.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/6/2009-सी एस-1 (एस) के अनुसरण में इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रुपये (पी बी-2) के वेतन बैंड + 4800/- रुपये के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31.12.2010 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे



जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, समय-समय पर सूचित तदर्थ पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अधीन आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	सी एस एल सं.	नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न की तिथि
1.	202/92	श्रीमती जनक बाला सहगल	31.10.2008 (अपराह्न)
2.	91/93	श्री एस. आर. लूथरा	31.10.2008 (अपराह्न)
3.	41/94	श्रीमती आर. के. पुरी	22.12.2008

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

#### खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2010

सं. ए-11011/1/2004-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री टी. जेकब, भारतीय प्रशासनिक सेवा (टीएन. 84) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 7 जून 2010 के पूर्वाह्न से पाँच वर्षों के लिए या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, (पी बी-4) 37,400/- 67,000/- रुपए + 10,000 रु. के ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सतपाल, उप सचिव

#### विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 जून 2010

सं. ए-32011/02/03-प्रशा-1(ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2010-सी. एस. I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी, श्री राजीव मलिक को तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिव) के रूप में 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 में 6,600/- रुपए के ग्रेड पे सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 28.05.2010 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें उसी ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए सम्मिलित किये जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3. यह तदर्थ पदोन्नति ओ.ए. सं. 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ सरकार तथा ओ.ए. सं. 2674/2009 श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ सरकार तथा अन्य जो कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित हैं, के अंतिम फैसले के अध्यधीन होगी।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 17013/20/2004-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1996-97, 1998, 1999 एवं 2000 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के अधिकारियों की भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए दिनांक 11 और 12 फरवरी, 2001 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई चयन सूचियों को संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है, जिसमें भारतीय वन सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल है :--

#### वर्ष 1996-97 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	सुरेन्द्र मोहन जोशी	26.05.1954
2.	आर. के. सचान (ओबीसी)	03.04.1953
3.	अचम्भे लाल यादव (ओबीसी)	01.12.1951
4.	रवीन्द्र जुयाल	12.07.1955
5.	भुवन चन्द्र (एससी)	16.02.1960
6.	विनोद कुमार (एससी)	01.10.1953
7.	एस. वी. शर्मा	04.03.1959
8.	डी. एन. सेमवाल	01.04.1954

#### वर्ष 1998 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	राम कृष्ण सिंह	15.02.1953
2.	डी. एन. शंखवार (एससी)	11.11.1947
3.	एम. एस. पाल (एसटी)	28.06.1955
4.	टी. पी. दुबे	01.02.1955

#### वर्ष 1999 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	जी. के. अग्रवाल	25.06.1959
2.	पंकज मिश्रा	30.01.1962
3.	डी. के. सिंह	01.12.1955
4.	आर. के. त्रिपाठी	05.07.1957
5.	नूरुल हुडा (ओबीसी)	01.07.1953

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
6.	गोपाल सिंह (एसटी)	01.11.1955
7.	अजय प्रकाश	05.01.1957
8.	राम प्रकाश (ओबीसी)	01.09.1952
9.	अमरेश चन्द्र (ओबीसी)	02.07.1954

## वर्ष 2000 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	उदयभान तिवारी	30.01.1954
2.	शोबरन लाल (एससी)	15.10.1955
3.	जे. के. सिंह	24.06.1954
4.	जी. सी. सिंह (ओबीसी)	31.12.1954
5.	जयराम (ओबीसी)	02.10.1951
6.	अजय कुमार श्रीवास्तव	01.07.1958

विवेक सक्सेना, निदेशक

दिनांक 26 मई 2010

सं. 17013/20/2004-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपनियम (1) सह पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 1996-97 से 2000 की चयन सूचियों के आधार पर भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का उत्तर प्रदेश (अविभाजित) संवर्ग आवंटित करते हैं :--

## वर्ष 1996-97 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	सुरेन्द्र मोहन जोशी	26.05.1954
2.	आर. के. सचन (ओबीसी)	03.04.1953
3.	अचम्भे लाल यादव (ओबीसी)	01.12.1951
4.	रवीन्द्र जुयाल	12.07.1955
5.	भुवन चन्द्र (अनुसूचित जाति)	16.02.1960
6.	विनोद कुमार (अनुसूचित जाति)	01.10.1953
7.	एस. वी. शर्मा	04.03.1959
8.	डी. एन. सेमवाल	01.04.1954

## वर्ष 1998 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	राम कृष्ण सिंह	15.02.1953
2.	डी. एन. शंखवार (अनुसूचित जाति)	11.11.1947
3.	एम. एस. पाल (अनुसूचित जन जाति)	28.06.1955
4.	टी. पी. दुबे	01.02.1955

## वर्ष 1999 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	जी. के. अग्रवाल	25.06.1959
2.	पंकज मिश्रा	31.01.1962
3.	डी. के. सिंह	01.12.1955
4.	आर. के. त्रिपाठी	05.07.1957
5.	नूहल हुडा (अन्य पिछड़ी जाति)	01.07.1953
6.	गोपाल सिंह (अनुसूचित जाति)	01.11.1955
7.	अजय प्रकाश	05.01.1957
8.	राम प्रकाश (अन्य पिछड़ी जाति)	01.09.1952
9.	अमरेश चन्द्र (अन्य पिछड़ी जाति)	02.07.1954

## वर्ष 2000 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1.	उदयभान तिवारी	30.01.1954
2.	शोबरन लाल (अनुसूचित जाति)	15.10.1955
3.	जे. के. सिंह	24.06.1954
4.	जी. सी. सिंह (अन्य पिछड़ी जाति)	31.12.1954
5.	जयराम (अन्य पिछड़ी जाति)	02.10.1951
6.	अजय कुमार श्रीवास्तव	01.07.1958

2. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की उप धारा (4) सह पठित, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड संवर्ग को निम्नलिखित अधिकारी आवंटित किए जाते हैं :--

क्रम सं.	नाम	चयन सूची	राज्य आबंटित संवर्ग
(सर्वश्री)			
1.	सुरेन्द्र मोहन जोशी	1996-97	उत्तराखंड
2.	रवीन्द्र जुयाल	1996-97	उत्तराखंड
3.	भुवन चन्द्र (अनुसूचित जाति)	1996-97	उत्तराखंड
4.	एस. बी. शर्मा	1996-97	उत्तराखंड
5.	डी. एन. सेमवाल	1996-97	उत्तराखंड
6.	एम. एस. पाल (अनुसूचित जन जाति)	1998	उत्तराखंड
7.	गोपाल सिंह (अनुसूचित जाति)	1999	उत्तराखंड
8.	शोबरन लाल (अनुसूचित जाति)	2000	उत्तराखंड
9.	जी. सी. सिंह (अन्य पिछड़ी जाति)	2000	उत्तराखंड
10.	जयराम (अन्य पिछड़ी जाति)	2000	उत्तराखंड

3. उपर्युक्त पदोन्नतियाँ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दायर रिट याचिका सं. 2821/2010-बी.आर अहीरवार बनाम भारत संघ के अंतिम परिणाम के अधधीन हैं।

बिवेक सक्सेना, निदेशक

दिनांक 14 जून 2010

सं. ए-17016/9/2009-आई.एफ.एस.-I--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से श्री वाई. अतससे थोंगतसर, भारतीय वन सेवा (के.आर. : 2003) संवर्ग से नागालैंड संवर्ग अंतर संवर्ग में प्रतिनियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। नागालैंड राज्य सरकार में श्री वाई. अतससे थोंगतसर की सेवाएं नागालैंड सरकार में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी।

बिवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. 18012/01/2008-भा.व.से.-II--केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आईएफएस (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 के नियम 3(3) और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वन सेवा महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित आईएफएस अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से स्थायी करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	आईएफएस में नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
1.	यू. एम. फारुकी	28.06.2004	28.06.2005
2.	एम. के. चान्देकर	28.06.2004	01.07.2005

1	2	3	4
(सर्वश्री)			
3.	जी. टी. खन्ना	28.06.2004	28.06.2005
4.	टी. एन. सालुंखे	28.06.2004	28.06.2005
5.	एस. एल. थवाड़े	28.06.2004	28.06.2005
6.	आर. एम. रामानुजम	23.08.2004	23.08.2007

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2010

सं. 6/1/2010-सीसीसी(.)--उपर्युक्त विषय के संबंध में एडेपेशन फंड बोर्ड सचिवालय से प्राप्त पत्र के अनुपालन में भारत सरकार ने श्री रजनी रंजन रश्मि, संयुक्त सचिव, (जलवायु परिवर्तन अनुभाग), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) को संबंधित नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों सहित नेशनल इंप्लीमेंटिंग इनटिटीज (एनआईई) को मान्यता के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्थापित एडेपेशन फंड बोर्ड पर विचार करने के लिए भारत की ओर से एनआईई द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी देने हेतु नामित प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

एस. सत्यधी, अपर निदेशक (सीसी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जून 2010

सं. ए-12025/88/07-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) गुंजन जैन को 25 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600—39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. (श्रीमती) गुंजन जैन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

पवन कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/183/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हरिशंकर निरंजन को 25.10.2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600—39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. हरिशंकर निरंजन को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

पवन कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2010

सं. ए-12025/04/2009-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संदीप कुमार सिन्हा को दिनांक 13.10.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल रोग शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2010

सं. ए-32013/1/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के आदेश संख्या 3/3/2010-सी.एस-I (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति सीएसएस के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से दिनांक 31.05.2011 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर तैनात करते हैं :-

1. श्री मनोज कुमार झा 31.05.2010 (पूर्वाह्न) से
2. श्री ध्रुव चक्रवर्ती 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा 02.06.2010 (पूर्वाह्न) से

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :-

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने हेतु अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता में दावा करने हेतु कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा;
- (ii) इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय तत्संबंधी कोई कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है;
- (iii) जिन्होंने अनिवार्य डी-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त नहीं किया है उन्हें 6 माह की अवधि के भीतर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा;
- (iv) तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक वाली ओ. ए. संख्या 3294/2009 तथा श्री पी एस भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाली ओ. ए. संख्या 2674/2009 के अंतिम निष्कर्ष के अध्वधीन है।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2010

सं. 3-19/2008-मा.(प्रशा.)--केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम में

निम्नलिखित पदों को तत्काल आधार पर निम्न प्रकार पुनः पदनामित किया जाता है:-

क्रम सं.	मौजूदा पद/वेतनमान (पूर्व संशोधित)	संशोधित पद/वेतनमान
1.	हैड क्लर्क (5,000—8,000 रुपए)	ऑफिस सुपरिटेण्डेंट पीबी-2, 9,300—34,800/- रु. + 4,200/- रुपए ग्रेड पे(पूर्व संशोधित 3,500—9,000/- रुपए)
2.	लोखाकार (5,000—8,000/- रुपए)	--वही--
3.	वरिष्ठ स्टोरकीपर (5,000—8,000/- रुपए)	--वही--
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (5,000—8,000/- रुपए)	--वही--

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2010

सं. 3-17/2007-मा. (प्रशा.)--केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में निम्नलिखित समूह ख पदों को तत्काल आधार पर निम्न प्रकार पुनः पदनामित किया जाता है:-

मौजूदा पद/वेतनमान	संशोधित पद/वेतनमान
मेट ग्रेड-II (6,500—10,500/- रुपए)	मेट पीबी-2, 9,300—34,800/- रु. + 4,600/- रुपए ग्रेड पे
सुदीपा कोहली, अवर सचिव	

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2010

सं. ए-32011/1/2010-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/1/2010-सीएस-I(एस) दिनांक 25.02.2010 के द्वारा वरिष्ठता कोटा के तहत वर्ष 2006 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में निम्नलिखित नामों को शामिल किए जाने के फलस्वरूप

राष्ट्रपति सीएसएस कैंडर के स्थायी सहायकों को नियमित आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के सीएसएस कैंडर में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड पर नियुक्त करती हैं :--

क्रम अधिकारियों के नाम  
सं.

1. श्री बल राम वर्मा
2. श्री सीता राम (अनुसूचित जाति)
3. श्री उमेश प्रकाश
4. श्रीमती नीलम भनोट
5. श्री उमाशंकर प्रसाद (अनुसूचित जाति) (रिटायर्ड)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्तियां माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चंद्र द्वारा यूओआई के खिलाफ दायर केस सं. 13245-60/2005, कैंट, दिल्ली में लंबित श्री शौरंशु सिन्हा द्वारा यूओआई के खिलाफ दायर किए गए केस सं. ओए 1083/2007 और एमए सं. 1171/2007, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सी डब्ल्यूपी सं. 13352/2005, कैंट में दायर ओए सं. 3294/2009 और कैंट, दिल्ली में ओए सं. 2674/2009 के निर्णय के अधधीन होगी।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2010

सं. 3-1/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति, ए.सी.सी. के दिनांक 9 मार्च, 2010 के आदेश सं. 4/50/2009-ई.ओ. (एस.एम.-I) के आधार पर श्रीमती एस.एस. पुजारी, आई.डी.ई.एस. (80) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग में रु. 37,400/-67,000/- (पी.बी.-4) एवं रु. 10,000/- ग्रेड पे के वेतनमान में, दिनांक 02 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से 01 मार्च, 2012 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मई 2010

सं. ए-22012/01/2005-स्था.-I--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में कार्यकाल पूरा होने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, आईएफएस (एमटी-85), निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सेवाओं को दिनांक 20.05.2010 (पूर्वाह्न) से उनके मूल संवर्ग, मणिपुर सरकार, इफाल को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, श्रीवास्तव को 12 दिन की अवधि अर्थात् 20.05.2010 से 31.05.2010 तक का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् श्रीवास्तव की सेवाओं को प्रधान मुख्य वन परिरक्षक, मणिपुर सरकार, इफाल को सौंपा जाता है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. 36-1/2004-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, बिहार राज्य इकाई में वैज्ञानिक-एफ (वरिष्ठ तकनीकी निदेशक), एनआईसी एवं राज्य आसूचना अधिकारी डॉ. सौरभ गुप्ता को, को-टर्मिनस आधार पर, निदेशक स्तर पर, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद के निजी सचिव के रूप में 4 अप्रैल, 2008 पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि या जब वे माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एन. पी. कंसवान, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जून 2010

सं. 3 (14)/2009-कार्मिक-I--निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2009 के परिणाम के आधार पर पदोन्नत होने पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एतद्द्वारा श्री संजय कुमार गुप्ता, वैयक्तिक सहायक को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 12.05.2010 के अपराह्न से 4,800/- रुपये प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 में नियमित आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया है।

2. श्री संजय कुमार गुप्ता की नियमित आधार पर हुई नियुक्ति एक नियमित पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर की गई है तथा प्रतिनियुक्ति पर गए संबंधित व्यक्ति के वापस आने की स्थिति में वे निजी सचिव (इन-सीटू) के पद पर पदावनत हो जाएंगे बशर्ते नियमित रिक्त स्थान पर उन्हें समायोजित नहीं किया जाता है।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जून 2010

सं. 1-2/2009-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के का.ज्ञा.सं. 5/16/2007-सी.एस.-I और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.06.2010 के आदेश सं. 5/16/2007-सी. एस.-I (यू)(वोल्यूम-III) के तहत वर्ष 2003 के लिए के.सि.से. की ग्रेड-I चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सहर्ष, के.सि.से. के अनुभाग अधिकारी श्री आर. के. भोरिया को सहायक महानिदेशक [सीएसएस के ग्रेड-I (यूएस)] के तौर पर डाक विभाग में रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पी.बी.-3) में 09.06.2010 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त चयन सूची में शामिल अधिकारी की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2010

सं. ईआरबी-1/2010/2/31--राष्ट्रपति जी, श्री विवेक सहाय, भारतीय रेल यातायात सेवा, सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड को 31.05.2010 के अपराह्न से रु. 80,000/- (निर्धारित) के ग्रेड में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 17 जून 2010

सं. ईआरबी-1/2005/2/26--सुश्री रश्मि भटनागर, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) की ग्रेड-I अधिकारी को 11.06.2010 के पूर्वाह्न से (12,000--16,500/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में) सेलेक्शन ग्रेड अर्थात् संयुक्त निदेशक/उप सचिव ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 18 जून 2010

सं. ईआरबी-1/2009/3/6--सुश्री मीना कुमारी-II, हिन्दी सहायक, रेलवे बोर्ड को 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान + 4,800/- रुपये ग्रेड पे में अनुभाग अधिकारी (हिन्दी), रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2009/3/6--श्री रिसाल सिंह, अनुभाग अधिकारी (राजभाषा), रेलवे बोर्ड को 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर ग्रेड वेतन 15,600--39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये ग्रेड पे में उप निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2009/3/6--श्री सुधीर कुमार शर्मा, सहायक हिन्दी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर ग्रेड वेतन 15,600--39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये ग्रेड पे में उप निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2009/3/6--श्री जयपाल सिंह, हिन्दी सहायक, रेलवे बोर्ड को 01.06.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर ग्रेड

वेतन 9,300--34,800/- रुपये के वेतनमान + 4,800/- रुपये ग्रेड पे में अनुभाग अधिकारी (हिन्दी), रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जून 2010

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री एस. पदमनाभन (सीएसएल सं. 6368) अनुभाग अधिकारी को पोत परिवहन मंत्रालय में पे बैंड-3 : रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 10.06.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सी. एस. एस. की श्रेणी-I) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति की चयन सूची में समावेश अथवा चयन श्रेणी में वरिष्ठता संबंधी दावा का अधिकार नहीं देती। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी कारण बताये, समाप्त की जा सकती है।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2010

सं. ए-12025/3/2009-स्था.--राष्ट्रपति, श्री बी. पोडियामोजी, निदेशक (यांत्रिकी) को पदोन्नत होने पर पोत परिवहन मंत्रालय में वेतन बैंड-4 : रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के वेतनमान में दिनांक 02.06.2010 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियमित आधार पर विकास सलाहकार (पत्तन) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2010

सं. 13/10 (फा. सं. 2/5/2009-प्रशा.-II)--इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 40/09 दिनांक 23.12.2009 तथा 2/10 दिनांक 03.02.2010 (फा. सं. 2/5/2009-प्रशा.-II) के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, श्री प्रणय कुमार, आईआरएसईई (1995) को विद्युत मंत्रालय में 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) के पे बैंड में 23.12.2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2010

सं. 15/2010 (फा. सं. 4/12/2009-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/2/2010-सी.एस.

आई.(एस.) में शामिल किए गए प्रावधानों के अनुसरण में सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थापनापन्न हैं, उन्हें नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष 2007 (वरिष्ठता कोट) के वरिष्ठता कोटे के लिए सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम	वर्तमान नियुक्ति
1.	सुश्री इंदिरा मोहिल	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
2.	श्री सुबानल्लाह	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

मधुकर सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2010

सं. 7/11/2009-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्यपालक इंजीनियरों को उनके नाम के आगे दी गई तिथि से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति करते हुए वेतनमान पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में नियमित आधार पर अधीक्षक इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री डी. एन. अरूण	07.05.2010 (पूर्वाह्न)
2.	श्री के. आर. विश्वास	30.04.2010 (पूर्वाह्न)

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

सं. 7/21/2005-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्री परदुमन सिंह कंवर को दिनांक 14.12.2009 से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में वेतनमान पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये (संशोधन पूर्व वेतनमान 8,000-13,500/- रुपये) में वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ भूभौतिकी विद्) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वे अपने कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, इस अवधि को सक्षम प्रधिकारी द्वारा अपने विवेक के अनुसार आवश्यक समझा जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2010

सं. 186/2010 (फा. सं. 18/5/2010-प्रशा-II)--महामहिम राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (मिसिल सं. ए-32013/1/2010-आईआईएस से जारी) दिनांक 13 मई, 2010 के आदेश सं. 45/2010-आईआईएस के अनुसरण में, इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में तैनात श्री राजेन्द्र भट्ट को नियमित आधार पर दिनांक 24.05.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रु. के

पूर्व-संशोधित वेतनमान में भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. श्री भट्ट को इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

3. उपर्युक्त नियुक्ति भारत संघ के विरुद्ध कैंट के मुख्य पीठ के समक्ष दायर की गई केन्द्रीय रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) सं. 421/2005 के परिणाम के अधधीन होगी।

राम फल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जून 2010

सं. 210/2010 [फा. सं.-4/1/2008-प्रशा-II(खण्ड)]--समसंख्यक मिसिल से जारी दिनांक 14/06/2010 के कार्यालय आदेश सं. 200/210 के तहत अवर सचिव श्री एस. एस. बेदी को प्रशा.-II और IV अनुभागों के प्रभार का आबंटन किए जाने के परिणामस्वरूप मुख्य सचिवालय में तैनात निम्नलिखित अवर सचिवों का पदनाम अगले आदेश होने तक प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अनुसार होगा :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान प्रभार	पदनामित किया गया
1.	राम फल	प्रशा. I एवं III, रोकड़ एवं संसद, अनुभाग	अवर सचिव (सामान्य प्रशा., रोकड़ एवं संसद)
2.	शरणजीत सिंह बेदी	प्रशा. II एवं IV, अनुभाग	अवर सचिव (प्रशासन)

2. श्री राम फल, अवर सचिव (जीए, रोकड़ एवं संसद), अगले आदेश होने तक वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978 के प्रत्यायोजन के नियम 3(जी) के अंतर्गत यथा परिभाषित कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

3. इसे संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशा.) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

शाम लाल, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2010

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमपी : 1993) को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 31.05.2010 (पूर्वाह्न) से 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के वेतनमान/वेतन बैंड में 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

श्री के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव (प्रशा.)

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th June 2010

No. RS/3/7/1/2010/45-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Krishan Kumar Prajapat, Editor in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (E&T) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the 11th June, 2010 and until further orders.

SUNDIP MESRA, Asstt. Dir.

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th June 2010

No. A-35013/1/2008-Ad.—The President is pleased to appoint Smt. Vandana Kini, IAS (BH:1989) as Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the National Security Council Secretariat, on deputation for a period of one year with effect from the forenoon of 02 June 2010.

P. K. ROY, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th May 2010

No. A-43011/1/2008-Adm.II—Consequent upon his promotion to Grade IV (Junior Time Scale) of the Indian Economic Service in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- on regular basis vide Department of Economic Affairs' Order No. P-2/2010 dated 03.05.2010 issued from file number 13016/4/2010-IES, Shri R. Mahesh a regular Economic Officer of Department of Agriculture and Cooperation is appointed as Research Officer (IES) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in the Planning Commission w.e.f. 13th May, 2010 (FN).

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 19th May 2010

No. A.12025/8/2007-Adm.II—The President is pleased to appoint Shri Baidhar Swain, Research Assistant (Statistics) of the Planning Commission to the post of Economic Officer (Project Appraisal) (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Planning Commission on Ad-hoc Deputation basis with effect from 10.05.2010 (AN) initially for a period of one year or till regular incumbent revert back to their substantive posts or until further orders, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 2nd June 2010

No. A.12025/14/2008-Adm.II—The President is pleased to appoint Shri Dhiraj Chandra Ray, Welfare Officer, O/o Director General of Prisons, Government of NCT of Delhi to the post of Research Officer (Sociology/Social Planning/Women's Programme) in the Planning Commission on the recommendation of UPSC in the Pay Band-3 (Rs. 15,000—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- on deputation basis with effect from 28.05.2010 (AN) initially for a period of three years, or until further orders whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 4th June 2010

No. A.19(16)/2007-Adm.II—Consequent upon completion of his deputation in the Planning Commission, Shri Vipin Kumar, Investigator, Town and Country Planning Organization, M/o Urban Development, New Delhi and presently working as Economic Officer (Sociology) in the Planning Commission in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay Rs. 4,600/- on deputation basis, shall stand relieved of his duties in the Planning Commission with effect from 07.06.2010 (A.N.).

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 31st May 2010

No. F.6(1597)/94-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Dr. Ratnakar Gedam, Adviser, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 1st June 2010

No. F.6(2133)/2010-Adm.I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Communication No. 21/3/2010-EO(SM.I) dated 19th May, 2010, Shri K. P. Krishnan, IAS (KN:83), Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has assumed additional charge as Secretary, Economic Advisory Council to the Prime Minister w.e.f. the forenoon of 21st May, 2010 and upto 30th June, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 17th June 2010

No. F.6(1281)/86-Adm.I—In compliance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by DoPT vide their Communication No. 7/7/2009-EO(SM.II), dated 15th June, 2010, the President is pleased to grant in-situ upgradation to Shri L. P. Sonkar, Adviser, Planning Commission from PB-4: Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- to HAG Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- with



effect from forenoon of 15th June, 2010 and until further orders.

2. Consequent upon this upgradation, Shri Sonkar will be designated as Senior Adviser.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st May 2010

No. A-60011/31/2001-Admn. I(LA)—In pursuance of the orders dated 27.08.2001 in OA No. 374 and 375 of 2001 of the Central Administrative Tribunal (Madras Bench) and on the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to antedate the promotion of Shri R. Ragupathi, now Additional Secretary to the Government of India as Joint Secretary and Legal Adviser (Grade I of the Legal Advisers Cadre of the Indian Legal Service) with effect from 10.08.2001.

Pursuant thereto, in the panel of Grade I of the Legal Advisers Cadre of the Indian Legal Service for the year 2000-01, the name of Shri R. Ragupathi, will figure at S. No. 3-A i.e. below the name of Shri B. L. Nishad (S. No. 3) and above the name of Shri A. P. Agrawal (S. No. 4). This Department's notification No. A-32012/5/2001-Admn.I (LA) dated 02.01.2002 stands modified to that extent.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. & Legal Adviser

New Delhi, the 11th June 2010

No. A-32013/05/2010-Admn.IV(LA)—The President is pleased to appoint Smt. Asha Sota, a regular Section Officer (CSL No. 6348) of Central Secretariat Service as Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/- purely on ad hoc basis with effect from the afternoon of 3rd June, 2010.

2. The appointment of Smt. Asha Sota in the grade of Under Secretary (Grade-I of CSS) shall be governed in terms of DoPT O.M. No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 26th May, 2010.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 10th June 2010

No. K. 13028/2/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Miss Rekha Manharlal Doshit, Judge of the Gujarat High Court, to be the Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K. 13026/1/2010-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice M. Yusuf Eqbal, Judge of the Jharkhand High Court, to be the Chief Justice of the Madras High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K. 11019/2/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sushil Harkauli, Seniormost Judge of the Jharkhand High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice M. Yusuf Eqbal relinquishes charge of the office of the Acting Chief Justice of the Jharkhand High Court consequent upon his appointment as the Chief Justice of the Madras High Court.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 15th June 2010

No. K. 13015/4/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Tarun Kumar Gupta, (ii) Shri Raghunath Bhattacharyya, (iii) Shri Asim Kumar Ray, (iv) Shri Mrinal Kanti Chaudhuri, and (v) Shri Kanchan Chakraborty, to be Judges of the Kolkata High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th June 2010

No. 44-19/2008-NDM-IV/II—The President is pleased to appoint the following Officers of Central Secretariat Service (CSS) Cadre and officiating as Under Secretaries on ad hoc basis in the National Disaster Management Authority (NDMA) to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis w.e.f. 1st July of the select list year as per details given below :—

Sl. No.	CSL No.	Select List Year	Name of the Officer
1.	5509	2006	Sh. Ashok Kumar Jain
2.	6287	2007	Sh. Budh Ram (SC)
3.	5956	2007	Sh. Chandra Shekhar Prasad

2. The actual benefit however would be available only from the date, officers are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS and assume the charge of the post.

3. The above appointments shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the Hon'ble High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 titled Sh. P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Sh. P. S. Bhandari Vs. UOI & ors.

PROMILA SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-1, the 22nd June 2010

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Dr. R. D. Srivastava, Indian Administrative Service Officer of 1990 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st May, 2010.

BALDEV RAJ, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL CIVIL DEFENCE

##### DGCD (FIRE)

New Delhi-110066, the 14th June 2010

No. 1-12012/05/07-DGCD(F)—The President is pleased to appoint Shri P. B. Bhole, Assistant in the National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra, as Administrative Officer in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in the National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra on promotion w.e.f. 25.03.2010 (F.N.) until further orders.

OM PARKASH, Fire Advisor, H.O.O.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

##### (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110001, the 17th June 2010

No. 24012/5/2007-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rajkamal, IAS (CG: 94) a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Chhattisgarh from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of this notification.

ROLI SINGH, Dir. (Services)

No. 24012/6/2003-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Shri B. R. Mishra, IAS (CG: 84) a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Chhattisgarh from the Indian Administrative Service with effect from the 4th September, 2000.

ROLI SINGH, Dir. (Services)

No. 24012/15/2006-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Maitreyi Das, IAS (MH: 86) a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Maharashtra from the Indian Administrative Service with effect from the 1st February, 2007.

ROLI SINGH, Dir. (Services)

No. 14017/36/2005-AIS(II)—The President is pleased to accept the resignation of Shri Shailesh K. Pathak, IAS (CG: 90) a member of the Indian Administrative Service, borne

on the cadre of Chhattisgarh from the Indian Administrative Service with effect from the 5th September, 2007.

ROLI SINGH, Dir. (Services)

New Delhi, the 15th June 2010

No. 23012/05/2009-AIS-III—Smt. B. Jothi Nirmala, IAS (TN: 2002) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2001 and borne on the cadre of Tamil Nadu, has been permitted to change her name from "B Jothi Nirmala." to "B Jothi Nirmalasamy". She will accordingly be recognised as Smt. B Jothi Nirmalasamy for all official purposes.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

New Delhi, the 16th June 2010

No. 13017/32/2008-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Uttarakhand, the Central Government hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Ms. Nidhi Mani Tripathi, IAS (MT: 01) from Manipur-Tripura cadre to Uttarakhand cadre for a further period of four years, w.e.f. 15.5.2010 i.e. upto 14.5.2014 or until further orders, whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

No. 13017/9/2010-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Punjab and Jharkhand, the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Diprava Lakra, IAS (PB: 05) from Punjab cadre to Jharkhand cadre for a further period of three years, from the date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 18th June 2010

No. 14015/03/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Meghalaya containing the following names prepared on 8th December, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 29th April, 2010, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Meghalaya segment of the joint IAS Cadre of Assam-Meghalaya under State Civil Service

category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 :—

## SELECT LIST 2009

Sl.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Mawshanlang Kharmujai (ST)	15.11.1956
2.	C. C. M. Mihsil (ST)	19.11.1956
3.	Silvester Kharlyngdoh (ST)	19.03.1960

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to outcome of the WP No. 39137/2009 (S-CAT) (Smt. Savithri M. V. Vs. UOI & Ors.), WP No. 1803-1806/2010 (S-CAT) (Government of India, DOPT Vs. Dr. P. Boregowda & Ors.) and connected Writ Petitions pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore wherein the matter regarding the provisions of Regulation 5(3) of IAS Promotion Regulations is sub judice.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/03/2009-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 on probation until further orders and to allocate them to Meghalaya segment of the Joint IAS Cadre of Assam-Meghalaya, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl.No.	Name
	S/Shri
1.	Mawshanlang Kharmujai (ST)
2.	C. C. M. Mihsil (ST)
3.	Silvester Kharlyngdoh (ST)

2. The appointment of the above officers in the subject to outcome of the WP No. 39137/2009 (S-CAT) (Smt. Savithri M. V. Vs. UOI & Ors.), WP No. 1803-1806/2010 (S-CAT) (Government of India, DOPT Vs. Dr. P. Boregowda & Ors.) and connected Writ Petitions pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore wherein the matter regarding the provisions of Regulation 5(3) of IAS Promotion Regulations is sub judice.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
OFFICE OF THE PROTOCOL OFFICER-III

New Delhi, the 8th June 2010

No. D-III/460/CF-11/2010—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Kailash Shreeram Agarwal as Honorary Consul of the Republic of Macedonia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Kailash Shreeram Agarwal comprises the State of Maharashtra.

VINAY KUMAR, Protocol Officer-III

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22nd April 2010

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL  
EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 18 of 2010 (F. No. A-38012/04/2010 Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Santi Priyo Das, Additional Director, DRI, Kolkata with effect from 02.05.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

The 17th May 2010

No. 21 of 2010 (F. No. A-39012/05/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Shri Sunil Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, New Delhi w.e.f. 28.08.2009 (AN) from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) for enabling him to join the IPS.

S. K. DEB, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

The 31st May 2010

No. 22 of 2010 (F. No. A-38012/11/2010-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Ahmed Hussasin, Director General (Valuation), Mumbai from the IRS (C&CE) with effect from 31.05.2010 (F.N.), under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

The 1st June 2010

No. 23 of 2010 (F. No. A-38012/12/2010-AD.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri K. C. Singh, Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Pune from the IRS (C&CE) with

effect from 31.05.2010 (F.N.), under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

New Delhi, the 1st June 2010

No. 50 (F. No. A-38011/2/2010-Ad.I)—Shri Narindar Singh, an Officer of the Indian Revenue Service (IT : 1972), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st May 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 51 (F. No. A-38011/3/2010-Ad.I)—Shri P. N. Vittal Dass, an Officer of the Indian Revenue Service (C&CE: 1974), posted as Member, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st May 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 52 (F. No. A-38011/1/2010-Ad.I)—Shri Shaikh Naimuddin, an Officer of the Indian Revenue Service (IT : 1972), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st May 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 53 (F. No. A-38013/3/2010-Ad.I)—Shri N. Vijayendrachar, an Officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer (ad-hoc) in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st May 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 54 (F. No. A-19012/7/2010-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri R. P. Singh, IRS (C&CE : 1995) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 01.06.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 8th June 2010

No. A-19011/298/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Md. Mahmood Dawla, Section Officer (CSL No. 6509) of CSS in the UPSC to the Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on an ad-hoc basis in Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 4th June, 2010 for a period up to 31.05.2011 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier, or until further orders.

2. The ad hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 1 of CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad hoc promotion of Shri Md. Mahmood Dawla shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/2009 titles Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & ors. pending before the CAT, New Delhi.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

New Delhi, the 14th June 2010

No. A-19011/297/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Malhotra, Section Officer (CSL No. 6354) of CSS in the PMO to the Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on an ad-hoc basis in Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 28th May, 2010 for a period up to 31.05.2011 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier, or until further orders and in terms of DOPT's Order No. 5/3/2010-CS.1(U) dated 26th May, 2010.

2. The ad hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 1 of CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad hoc promotion of Shri Vijay Malhotra shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UOI and OA No. 2674/2009 titles Shri P. S. Bhandari vs. UOI & ors. pending before the CAT, New Delhi.

TARSEM CHAND, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 16th June 2010

No. A-12023/4/2007-Ad-IV—The President is pleased to permit Shri S. D. Singh, (Joint Secretary, CSS cadre) who was working as Secretary in the then MRTP Commission on deputation basis under the Ministry of Corporate Affairs to retire voluntarily from Government Service w.e.f. 31.03.2010 under rule 48(1)(a) of CSS Pension Rules.

BINA RANI VIJ, Dy. Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

## [DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)]

New Delhi, the 16th June 2010

No. A-32014/3/2010-Cadre—In pursuance to DOP&T's Order No. 5/3/2010/CS.I(U), dated May 26, 2010, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis w.e.f. the date mentioned against their names :—

Sl. No.	CSL Name	Cat.	SO-SL Date of Birth	Date of Joining
1. 6482	Rajeev Sharma	Gen.	1997 31.08.1962	04.06.2010 (F/N)
2. 6662	B. Thawng Sian Dong	ST	2000 01.01.1971	04.06.2010 (F/N)

2. The ad-hoc promotion is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The Officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training within a period of six months;
- (iv) The ad-hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009, titled Shri P. R. Sharma Vs UOI and OA No. 2674/2009, titled Shri P. S. Bhandari Vs UOI & ors., pending before the CAT, New Delhi.

3. Shri Rajeev Sharma, Under Secretary, is posted in Secretariat and Shri B. Thawng Sian Dong, Under Secretary, is posted to DGS&D with effect from 04.06.2010 (F/N).

PARMJIT SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd June 2010

No. G-35012/1/10-Fin.II—In pursuance of the approval of the Appointments Committee of the Cabinet, as conveyed by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel & Training) Communication No. 22/5/2010-EO(SM.1) dated 4th June, 2010, Shri Arun Kumar, CSS (YOE:74) is appointed as Secretary, Oil Industry Development Board (OIDB), on in-situ elevation basis, in the rank and pay of Additional Secretary w.e.f. 10th May 2010.

V. K. SETHI, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd May 2010

No. A.38011/14/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Sharat Chandra Das, Under Secretary (CSS) (CSL No. 5077), in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2010.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

## MINISTRY OF CHEMICALS &amp; FERTILIZERS

## (DEPARTMENT OF CHEMICALS &amp; PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 11th June 2010

No. A-19011/1/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Suneel Sachdeva, a regular Section Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Chemicals & Petrochemicals in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from the forenoon of 4th June, 2010.

2. The aforesaid ad-hoc appointment is subject to the terms and conditions as enunciated in Department of Personnel and Training's order No. 5/3/2010/CS.I(U) dated 26th May, 2010.

R. K. KUREEL, Under Secy.

## DEPARTMENT OF FERTILIZERS

New Delhi, the 17th June 2010

No. A-32011/01/2010-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Sowmendra Chanda, Section Officer as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Fertilizers w.e.f. 03.06.2010 (A/N) upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders subject to the terms and conditions contained in DoPT's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010.

2. Sh. Sowmendra Chanda is posted as Under Secretary (HR-II) in the Deptt. of Fertilizers.

S. R. GHOSH, Under Secy.

No. A-32011/01/2010-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Sanjay Srivastava, Section Officer as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Fertilizers w.e.f. 08.06.2010 upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders subject to the terms and conditions contained in DoPT's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010.

2. Sh. Sanjay Srivastava is posted as Under Secretary (Coord.) in the Deptt. of Fertilizers.

S. R. GHOSH, Under Secy.

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 2nd June 2010

No. 11(42)/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Bharat Vir Chawla an officer of CSS cadre and working as Section Officer in the Ministry of Steel has retired on 31.05.2010 (A/N).

SUNIL PRAKASH, Dy. Secy.

No. 2(23)/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training Order No. 5/10/2010 C.S.I (U) dated 26th May, 2010. Shri Subrata K. Basu, has been appointed as Under Secretary on ad-hoc basis in Ministry of Steel from the forenoon of 1st June 2010.

SUNIL PRAKASH, Dy. Secy.

No. 11(53)/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Nand Lal an officer of CSSS cadre and working as Principal Staff Officer in the Ministry of Steel has retired on 31.05.2010 (A/N).

SUNIL PRAKASH, Dy. Secy.

The 4th June 2010

No. 5(4)/2010-Estt.—With reference to Department of Official Language's Office Order No. 5/6/2007 dated the 27th April, 2010, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, who was working as Deputy Director (OL) in the Ministry of Water Resources, as Joint Director (OL) in the Ministry of Steel on ad-hoc basis w.e.f. 17.05.2010 (F.N.) and until further orders.

SUNIL PRAKASH, Dy. Secy.

New Delhi, the 10th May 2010

No. 5(12)/99-Estt.—Consequent upon his repatriation from Competition Commission of India, Shri Dhruv Chakravarty, Section Officer is taken on the strength of the CSS cadre of Ministry of Steel w.e.f. the afternoon of 30th April, 2010.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 17th June 2010

No. A-32012/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/6/2009-CS.I(S) dated 7.6.2010, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of this Department as Section Officer of CSS in the Department of Consumer Affairs in the pay band

(PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 17th June, 2010 to 31st December, 2010 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Assistant	Select List Year
1.	Shri Vikas Tripathi	1993
2.	Shri Sunil Kumar Singh (SC)	1995

2. The above appointment is subject to the following conditions :—

- The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.
- Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them by this Department.

PREMA BHATT, Under Secy.

No. A-32012/1/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/6/2009-CS.I(S) dated 7.6.2010, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following regular Assistants of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- for the period up to 31.12.2010 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of ad-hoc promotion intimated from time to time :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO on ad hoc basis
1.	202/92	Smt. Janak Bala Sehgal	31.10.2008 (A/N)
2.	91/93	Shri S. R. Luthra	31.10.2008 (A/N)
3.	41/94	Smt. R. K. Puri	22.12.2008

PREMA BHATT, Under Secy.

## DEPARTMENT OF FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 14th June 2010

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri T. Jacob, IAS (TN: 84) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 7th June, 2010 in the Pay Band (PB-4) 37,400—67,000/- plus grade pay of Rs. 10,000/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

SAT PAL, Dy. Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 3rd June 2010

No. A-32011/02/03-Admn.I(A)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/3/2010/CS.I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Malik, Section Officer in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology to the Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Department of Science & Technology, in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 28.05.2010.

2. The ad-hoc promotion shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The ad-hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

The 21st April 2010

No. 17013/20/2004-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Uttar Pradesh to the Indian Forest Service for the year 1996-97, 1998, 1999 & 2000 prepared in the Selection Committee meeting held on 11th & 12th February, 2010 containing the name of following officers of the State Forest Service of Uttar Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Uttar Pradesh cadre of the Indian Forest Service :—

## SELECT LIST OF 1996-97

S.No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Surendra Mohan Joshi	26.05.1954
2.	R. K. Sachan (OBC)	03.04.1953

1	2	3
3.	Achambhe Lal Yadav (OBC)	01.12.1951
4.	Ravindra Juyal	12.07.1955
5.	Bhuvan Chandra (SC)	16.02.1960
6.	Vinod Kumar (SC)	01.10.1953
7.	S. V. Sharma	04.03.1959
8.	D. N. Semwal	01.04.1954

## SELECT LIST OF 1998

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Ram Krishna Singh	15.02.1953
2.	D. N. Sankhwar (SC)	11.11.1947
3.	M. S. Pal (ST)	28.06.1955
4.	T. P. Dube	01.02.1955

## SELECT LIST OF 1999

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	G. K. Agarwal	25.06.1959
2.	Pankaj Mishra	30.01.1962
3.	D. K. Singh	01.12.1955
4.	R. K. Tripathi	05.07.1957
5.	Noorul Hooda (OBC)	01.07.1953
6.	Gopal Singh (ST)	01.11.1955
7.	Ajai Prakash	05.01.1957
8.	Ram Prakash (OBC)	01.09.1952
9.	Amresh Chandra (OBC)	02.07.1954

## SELECT LIST OF 2000

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Udaibhan Tiwari	30.01.1954
2.	Shobran Lal (SC)	15.10.1955
3.	J. K. Singh	24.06.1954
4.	G. C. Singh (OBC)	31.12.1954
5.	Jairam (OBC)	02.10.1951
6.	Ajai Kumar Srivastava	01.07.1958

VIVEK SAXENA, Dir.

The 26th May 2010

No. 17013/20/2004-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following officers of the State Forest Service of Undivided Uttar Pradesh to the Indian Forest Service on the basis of Select Lists for the years 1996-97 to 2000 and allocate them to Uttar Pradesh (Undivided) Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

## SELECT LIST OF 1996-97

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Surendra Mohan Joshi	26.05.1954
2.	R. K. Sachan (OBC)	03.04.1953
3.	Achambhe Lal Yadav (OBC)	01.12.1951
4.	Ravindra Juyal	12.07.1955
5.	Bhuvan Chandra (SC)	16.02.1960
6.	Vinod Kumar (SC)	01.10.1953
7.	S. V. Sharma	04.03.1959
8.	D. N. Semwal	01.04.1954

## SELECT LIST OF 1998

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Ram Krishna Singh	15.02.1953
2.	D. N. Sankhwar (SC)	11.11.1947
3.	M. S. Pal (ST)	28.06.1955
4.	T. P. Dube	01.02.1955

## SELECT LIST OF 1999

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	G. K. Agarwal	25.06.1959
2.	Pankaj Mishra	30.01.1962
3.	D. K. Singh	01.12.1955
4.	R. K. Tripathi	05.07.1957
5.	Noorul Hooda (OBC)	01.07.1953
6.	Gopal Singh (ST)	01.11.1955
7.	Ajai Prakash	05.01.1957
8.	Ram Prakash (OBC)	01.09.1952
9.	Amresh Chandra (OBC)	02.07.1954

## SELECT LIST OF 2000

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Udaibhan Tiwari	30.01.1954
2.	Shobran Lal (SC)	15.10.1955
3.	J. K. Singh	24.06.1954
4.	G. C. Singh (OBC)	31.12.1954
5.	Jairam (OBC)	02.10.1951
6.	Ajai Kumar Srivastava	01.07.1958

2. In exercise of powers conferred by Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, read with sub-section (4) of Section 72 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Central Government hereby allocates the following Officers to Uttrakhand Cadre :—

Sl. No.	Name	Select List	State Cadre allocated
1.	Surendra Mohan Joshi	1996-97	Uttrakhand
2.	Ravindra Juyal	1996-97	Uttrakhand
3.	Bhuvan Chandra (SC)	1996-97	Uttrakhand
4.	S. V. Sharma	1996-97	Uttrakhand
5.	D. N. Semwal	1996-97	Uttrakhand
6.	M. S. Pal (ST)	1998	Uttrakhand
7.	Gopal Singh (ST)	1999	Uttrakhand
8.	Shobran Lal (SC)	2000	Uttrakhand
9.	G. C. Singh (OBC)	2000	Uttrakhand
10.	Jairam (OBC)	2000	Uttrakhand

3. The above promotions are subject to the final outcome of Writ Petition No. 2821/2010-B. R. Ahirwar Vs Union of India filed before the Hon'ble High Court, Allahabad.

VIVEK SAXENA, Dir.

New Delhi-110003, the 14th June 2010

No. 17016/9/2009-IFS.I—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the approval of the competent authority has approved the inter cadre deputation of Shri Y. Atsase Thongtsar, IFS (KR:2003) from Kerala cadre to Nagaland cadre. The services of Shri Y. Atsase Thongtsar are placed with the State Government of Nagaland for a period of five years with effect from the date of his joining in Nagaland Government.

VIVEK SAXENA, Dir.



New Delhi-110003, the 16th April 2010

No. 18012/01/2008-IFS.II—In exercise of the powers conferred by the Rules 3(3) & 4 of the IFS (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following IFS Officers borne on the Cadre of Maharashtra State in the Indian Forest Service with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment in the IFS	Date of Confirmation
	S/Shri		
1.	U. M. Farooqui	28.06.2004	28.06.2005
2.	M. K. Chandekar	28.06.2004	01.07.2005
3.	G. T. Chavan	28.06.2004	28.06.2005
4.	T. N. Salunkhe	28.06.2004	28.06.2005
5.	S. L. Thaware	28.06.2004	28.06.2005
6.	R. M. Ramanujam	23.08.2004	23.08.2007

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

New Delhi, the 14th June 2010

No. 6/1/2010-CCC(.)—In pursuance of the letter from Secretariat, Adaptation Fund Board regarding the communication of the Designated Authority, Government of India has decided to appoint Mr. Rajani Ranjan Rashmi, Joint Secretary, Ministry of Environment & Forests (MoEF) as Designated Authority with powers delegated under the relevant rules to sign the application of accreditation of National Implementing Entities (NIEs) and endorse projects and programmes proposed by NIE on behalf of Government of India for consideration of Adaptation Fund Board established under United Nations Framework Convention on Climate Change.

S. SATAPATHY, Addl. Dir. (CC)

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 10th June 2010

No. A. 12025/88/07-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Gunjan Jain to the Medical Officer's Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100+5,400/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25th August, 2009 until further orders. Dr. (Smt.) Gunjan Jain is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/183/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Harishankar Niranjana to the Medical Officer's Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100+5,400/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25.10.2006 until further orders. Dr. Harishankar Niranjana is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 2nd June 2010

No. A. 12025/4/09-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shandip Kumar Sinha to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatric Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 13.10.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th June 2010

No. A-32013/1/2010-E.I—In pursuance of the Department of Personnel & Training Office Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.5.2010, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS as Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis w.e.f. the date shown against each and upto 31.5.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders :—

1. Shri Manoj Kumar Jha w.e.f. 31.05.2010 (FN)
2. Shri Dhruv Chakravarty w.e.f. 01.06.2010 (FN)
3. Shri Om Prakash Sharma w.e.f. 02.06.2010 (FN)

2. The ad hoc promotion is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any time without giving any reason therefor;
- (iii) Those who have not undergone mandatory level-D training programme will be required to undergo the said training within a period of 6 months;
- (iv) Ad hoc promotion is subject to final outcome in OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI and others pending before CAT, Delhi.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING  
& FISHERIES)**

New Delhi, the 9th June 2010

No. 3-19/2008-Fy. (Admn.)—The following posts of Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Chennai and Visakhapatnam are hereby re-designated with immediate effect as indicated below :—

Sl. No.	Existing Designation/ Pay scale (pre-revised)	Revised Designation/ Pay scale
1.	Head Clerk (Rs. 5,000—8,000/-)	Office Superintendent PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/- (pre-revised Rs. 5,500—9,000/-)
2.	Accountant (Rs. 5,000—8,000/-)	—do—
3.	Senior Storekeeper (Rs. 5,000—8,000/-)	—do—
4.	Stenographer Grade II (Rs. 5,000—8,000/-)	—do—

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

The 17th June 2010

No. 3-17/2007-Fy. (Admn.)—The following Group B post of Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi is hereby re-designated with immediate effect as indicated below :—

Existing Designation/ Pay scale	Revised Designation/ Pay scale
Mate Grade-II (Rs. 6,500—10,500/-)	Mate PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/-

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 24th May 2010

No. A.32011/1/2010-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2006 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's OM No. 6/1/2010-CS.I(S) dated 25.02.2010, the President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the CSS cadre to the grade of Section Officer on regular basis in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) :—

Sl. No.	Name of Officer
1.	Shri Bal Ram Verma
2.	Shri Sita Ram (SC)
3.	Shri Umed Parkash
4.	Smt. Neelam Bhanot
5.	Shri Uma Shankar Prasad (SC) (Retired)

2. The appointments of the above officers shall be subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander vs UOI pending in the Hon'ble High Court of Delhi, Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha vs. UOI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the Hon'ble High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

**MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT**

New Delhi, the 17th May 2010

No. 3-1/2010-Admn.—In pursuance of ACC's Order No. 4/50/2009-EO(SM.I) dated 9th March, 2010, the President is pleased to appoint Smt. S. S. Pujari, IDES (80) as Joint Secretary in the National Commission for Women under the Ministry of Women and Child Development, in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/- with effect from 2nd March, 2010 (forenoon) for the period upto 1st March, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

New Delhi-110001, the 19th May 2010

No. A-22012/01/2005-Estt.-I.—On completion of his tenure of Central Deputation, Shri Rajiv Kumar Srivastava, IFS (MT:85), Director, Ministry of Social Justice and Empowerment, stands repatriated to his parent cadre, Government of Manipur, Imphal, w.e.f. 20.05.2010 (F/N).

2. Further Shri Srivastava has been granted Earned Leave for a period of 12 days w.e.f. 20.05.2010 till 31.05.2010. After the expiry of the above said leave, the services of Shri Srivastava will stand placed at the disposal of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Manipur, Imphal.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 4th April 2008

No. 36-1/2004-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Saurabh Gupta, Scientist-F (Senior Technical Director), NIC & State Informatics Officer in the State Unit of Bihar as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Communications and Information Technology (Dr. Shakeel Ahmad) on co-terminus basis at the level of Director with effect from the forenoon of the 4th April, 2008 for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to Hon'ble Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

N. P. KESAVAN, Under Secy.

## DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 9th June 2010

No. 3(14)/2009-P.I.—On the basis of the results of Limited Departmental Competitive Examination, 2009 for promotion to the post of Private Secretary, Secretary, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology hereby appoints Shri Sanjay Kumar Gupta, Personal Assistant on promotion as Private Secretary, on regular basis, in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- p.m. in the Department of Information Technology with effect from the afternoon of 12.05.2010.

2. The appointment of Shri Sanjay Kumar Gupta as Private Secretary on regular basis is against a vacancy due to regular incumbent being away on deputation and in case of reversion of such deputationist, he will stand reverted as PS (In-situ) if not adjusted against regular vacancy.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

## DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 10th June 2010

No. 1-2/2009-Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List of Grade I of CSS for the year 2003 vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009 and DoP&T's Order No. 5/16/2007-CS.I(U)(Vol.III) dated 09.06.2010, the President is pleased to appoint Shri R. K. Bhorla, Section Officer of CSS in Deptt. of Posts as Assistant Director General [Grade-I (US) of CSS] in the same Department in the pay band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) with effect from 09.06.2010 on regular basis.

2. The appointment of the officer included in the above select list shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th June 2010

No. ERB-I/2010/2/31—The President is pleased to appoint Shri Vivek Sahai, IRTS, Member (Traffic), Railway Board as Chairman Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India in the Grade Rs. 80,000/- (fixed) with effect from afternoon of 31.05.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

The 17th June 2010

No. ERB-I/2005/2/26—Ms. Rashmi Bhatnagar, Grade-I Officer of Railway Board Secretary Service (RBSS) has been promoted to Selection Grade i.e. Joint Director/Deputy Secretary Grade (Scale Rs. 12,000—16,500/- pre-revised) with effect from the forenoon of 11.06.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

The 18th June 2010

No. ERB-I/2009/3/6—Ms. Meena Kumari-II, Hindi Assistant, Railway Board, has been promoted to Section Officer (Hindi), Railway Board in Scale Rs. 9,300—34,800/- plus Rs. 4,800/- Grade Pay on ad hoc basis with effect from 01.06.2010 (FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2009/3/6—Shri Risal Singh, Section Officer (OL), Railway Board, has been promoted as Deputy Director (Official Language), Railway Board in Grade Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 6,600/- Grade Pay on ad hoc basis with effect from 01.06.2010 (FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2009/3/6—Shri Sudhir Kumar Sharma, Assistant Hindi Officer, Railway Board, has been promoted as Deputy Director (Official Language), Railway Board in Grade Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 6,600/- Grade Pay on ad hoc basis with effect from 01.06.2010 (FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2009/3/6—Shri Jaipal Singh, Hindi Assistant, Railway Board, has been promoted as Section Officer (Hindi), Railway Board in Scale Rs. 9,300—34,800/- plus Rs. 4,800/- Grade Pay on ad hoc basis with effect from 01.06.2010 (FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.  
(Railway Board)

## MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 14th June 2010

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint, Shri S. Padmanabhan, Section Officer (CSL No. 6368) as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad hoc basis, in the Ministry of Shipping in the Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) w.e.f. 10.06.2010 (FN), until further orders.

2. The appointment is subject to the conditions that the ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

The 15th June 2010

No. A-12025/3/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B. Poiyaamozhi, Director (Engineering) as Development Adviser (Ports) in the Ministry of Shipping in the pay scale of PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/- on promotion on regular basis with effect from 02.06.2010 (F.N.) for a period upto superannuation or until further orders, whichever is earlier.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th June 2010

No. 13/10 (F. No. 2/5/2009-Adm.II)—In supersession of this Ministry's Notification No. 40/09 dated 23.12.2009 and 02/10 dated 03.02.2010 (F. No. 2/5/2009-Adm.II), the President is pleased to appoint Shri Pranay Kumar, IRSEE (1995) as Director in the Ministry of Power in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 23.12.2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 15th June 2010

No. 15/2010 (F. No. 4/12/2009-Adm.II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training O.M. No. 6/2/2010-CS.I(S) dated 19th May, 2010 the following regular Assistants of the Ministry of Power Cadre of CSS, presently officiating as Section Officer, on ad hoc basis, are appointed to the grade of Section Officer of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2007 (seniority quota):—

Sl. No.	Name	Present posting
1.	Ms. Indira Mohil	Ministry of New & Renewable Energy
2.	Shri Subanallah	Central Electricity Authority

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th June 2010

No. 7/11/2009-CGWB—The President is pleased to promote the following Executive Engineers as Superintending Engineer in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
1.	Shri D. N. Arun	07.05.2010 (FN)
2.	Shri K. R. Biswas	30.04.2010 (FN)

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

No. 7/21/2005-CGWB—The President is pleased to appoint Shri Parduman Singh Kanwar as Scientist 'B' (Jr. Geophysicist) in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- (pre-revised scale Rs. 8,000—13,500/-) in Central Ground Water Board with effect from 14.12.2009.

He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 7th June 2010

No. 186/2010 F. No. 18/5/2010-Admn.II—In pursuance of Ministry of Information & Broadcasting's Order No. 45/2010-IIS, dated 13th May, 2010 (issued from the file No. A-32013/1/2010-IIS), the President is pleased to appoint Shri Rajendra Bhatt, posted in the Main Sectt of this Ministry, in the Senior Grade of Indian Information Service in the pre-revised scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from forenoon of 24.05.2010 and until further orders.

2. Sh. Bhatt is posted as OSD in the Main Sectt. of this Ministry.

3. The above appointment is subject to the outcome in the CWP No. 421/2005 filed by Shri D. Sathpathy and others Vs. Union of India before the Principal Bench of CAT.

RAM PHAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 18th June 2010

No. 210/2010 F. No. 4/1/2008-Admn.II(Pt.)—Consequent upon allocation of charge of Admn. II & IV sections to Sh. S. S. Bedi, Under Secretary, vide O. O. No. 200/210 dt. 14/06/10, issued from file of even number, the designation of the under mentioned Under-Secretaries posted in the

Main Sectt., will be as mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Present charge	Designated as
1.	Shri Ram Phal	Admn. I, III, Cash & Parliament, sections	Under Secretary (GA, Cash & Parliament)
2.	Sh. Saranjit Singh Bedi	Admn. II & IV, sections	Under Secretary (Administration)

2. Sh. Ram Phal, US (GA, Cash & Parl) will continue to function as Head of Office as defined under Rule 3 (g) of Delegation of Financial Power Rules, 1978, until further orders.

3. This issues with the approval of Joint Secretary (P&A).

SHAM LAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th June 2010

No. A-22017/1/2007-Admn.I—The President is pleased to appoint Smt. Deepti Gaur Mukherjee, IAS (MP:1993) as Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation w.e.f. 31.05.2010 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. G. MOHANTA, Under Secy. (Admn.)